



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1940 (श10)
(सं० पटना 121) पटना, शुक्रवार, 25 जनवरी 2019

सं० 1लो०ले०स०-03/17-2442/वि०स०
बिहार विधन सभा सचिवालय

प्रेषक,

प्रमोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
बिहार विधन-सभा, पटना ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक 31 मार्च, 2017 ई० ।

विषय:- सी.ए.जी. के वर्ष 2015-16 के प्रतिवेदन "राज्य का वित्त, राजस्व प्रक्षेत्र तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" को सदन पटल पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि सी०ए०जी० का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "राज्य का वित्त, राजस्व प्रक्षेत्र तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा दिनांक 27.03.2017 को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया तथा "प्रतिवेदनों को जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" के आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।
तत्संबंधी पारित प्रस्ताव की टंकित प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

विश्वासभाजन,
प्रमोद कुमार सिंह,
उप-सचिव ।

प्रस्ताव

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि “बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015–16 का प्रतिवेदन (1) “राज्य का वित्त” (2) “राजस्व प्रक्षेत्र” तथा (3) “सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र” को बिहार विधान-सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 121-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>